



रामाज्ञा स्कूल नौएडा

आठ/ सिल्वर जोन/(2018-19)

ओलम्पियाड अभ्यास कार्यपत्रक

दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर है। यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों में जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज़ यात्री या पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई विश्व के सर्वोच्च दस वाणिज्यिक केन्द्रों में से है। भारत के अधिकांश बैंक एवं सौदागिरी कार्यालयों के प्रमुख कार्यालय एवं कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं भारतीय कम्पनियों के निगमित मुख्यालय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मुंबई में स्थित हैं। इसलिए यह भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है।

1. महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ स्थित है ?
(क) नई दिल्ली (ख) मुंबई
(ग) पटना (घ) नागपुर
2. भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है ?
(क) कोलकाता (ख) नई दिल्ली
(ग) शिमला (घ) मुंबई
3. मुंबई भारत का वाला शहर है ?
(क) सबसे कम आबादी (ख) सबसे अधिक आबादी
(ग) सबसे बड़ा क्षेत्रफल (घ) सबसे कम क्षेत्रफल
4. इत्यादि का संधि - विच्छेद
(क) इत्या + आदि (ख) इति + आदि
(ग) इ + त्यादी (घ) इत्या + अदि
5. बिना विचारे काम करने वाला -
(क) विद्वान (ख) मूर्ख
(ग) स्वार्थी (घ) समझदार
6. कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है -
(क) भूषण (ख) वस्त्र
(ग) कागज (घ) क और ख दोनों
7. मूक का विलोम शब्द है
(क) चुप (ख) शांत
(ग) सगुण (घ) वाचाल
8. जिसका आचरण अच्छा न हो -
(क) सच्चरित्र (ख) दुराचारी
(ग) उदारवादी (घ) अभिमानी
9. जिनका उच्चारण कंठ से हो, उसे कहते हैं ?

- (क) तालव्य (ख) कण्ठ्य
 (ग) मूर्धन्य (घ) दन्त्य
10. जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर मन घृणा भाव जागृत होता है, वह रस कहलाता है-
 (क) करुण रस (ख) वीभत्स रस
 (ग) रौद्र रस (घ) श्रृंगार रस
11. हरतरफ में उपसर्ग है
 (क) ह (ख) तरफ
 (ग) हर (घ) फ
12. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द है -
 (क) पिता (ख) लड़का
 (ग) माता (घ) भाई
13. सात बजने दस मिनट हैं |
 (क) को (ख) से
 (ग) पर (घ) में
14. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द संज्ञा है ?
 (क) वह (ख) सुन्दर
 (ग) दूध (घ) बुरा
15. 'ण' किस वर्ग का उच्चारण है -
 (क) ट (ख) क
 (ग) च (घ) प
16. ओष्ठ्य व्यंजन का चयन कीजिए -
 (क) त (ख) ट
 (ग) र (घ) प
17. शुद्ध शब्द का चयन कीजिए -
 (क) अहिल्या (ख) अहल्या
 (ग) अहील्या (घ) अहीला
18. अटारी का तत्सम होगा -
 (क) आटारी (ख) अट्टारी
 (ग) अट्टालिका (घ) अट्टालिका
19. 'से' किस कारक का चिह्न है -
 (क) कर्म (ख) कर्ता
 (ग) करण (घ) अपादान
20. अर्द्धविराम का चिह्न है |
 (क) : (ख) ,
 (ग) | (घ) !